

इलाज लाईम

भाग 1: पुराने संक्रमण के इलाज के लिए नींव

लाईम रोग का इलाज करने के लिए हर चिकित्सक के लिए एक चुनौती है. वहाँ पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं से विभिन्न वैकल्पिक तरीकों के लिए कई उपचार प्रोटोकॉल, कर रहे हैं. मेरा मानना है कि वे सब उनके गुण हैं, लेकिन दोनों पारंपरिक का उपयोग कित्सा दवाओं, वैकल्पिक उपचार प्रोटोकॉल, मनोचिकित्सा और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ पिछले कुछ वर्षों में सबसे सफल दृष्टिकोण साबित हो गया है. फिर भी, तय कदम है जो प्रत्येक व्यक्ति के मामले में पहली बार लेने के लिए आसान नहीं है. मैं आप के साथ अपने खुद के रूप के रूप में अच्छी तरह से विचारों प्रोटोकॉल है कि अन्य चिकित्सकों के अनुभवों से वर्षों में उभरा है साझा करना चाहते हैं. और निम्नलिखित लेख की सामग्री के निर्माण दाना गोर्मन www.thriive.com की सांप्रदायिक प्रयास लगता है कि टैंक और अनुभवी स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) और लाईम चिकित्सकों के शिखर सम्मेलन के साथ ही संभव था. हम मानते हैं कि सबसे एएसडी बच्चों जन्मतः लाईम प्राप्त कर लिया है और हम एएसडी उपचार के सिद्धांतों हमारे लाईम रोगियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं. विटामिन कश्मीर प्रोटोकॉल, आयोजन के लिए एमी Derksen और फिर सोच सामग्री, सबसे व्यस्त और सबसे सफल दुनिया में एएसडी अभ्यास के अनुभव को साझा करने के लिए अंजू उस्मान के लिए कैथरीन Tamaro के लिए विशेष धन्यवाद. इसके अलावा हमें मेथिलिकरण चक्र, की खोज के लिए अब्राम Hoffer KPU और हमारे क्षेत्र में सभी अन्य अनाम अग्रदूतों के लिए शुरू करने के लिए डा. एमी के लिए धन्यवाद.

मूल बातें:

वास्तविक उपचार को संबोधित करने से पहले, मैं कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो की समझ लाईम रोग के सफल उपचार के लिए महत्वपूर्ण है.

बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और सह आदत नए नए साँचे: सबसे पहले, रोगाणुओं समुदायों में मौजूद हैं. एक प्रजाति का समर्थन करता है और दूसरे से परस्पर लाभ. इसलिए एक सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोगी के पूरे इलाज के क्रम में लाईम के इलाज के लिए एक वास्तविक मौका है.

दूसरे, रोगाणुओं छिपाना जैव को वश में करने के लिए विषाक्त पदार्थों इम्यूनो विषाक्त पदार्थों और एंजाइम को अवरुद्ध एंजेंटों - मेजबान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पदार्थों और आणविक अनुकरण है, जो स्पष्ट रूप से मतलब है कि हम भी रोगी की एक उच्च लोड में जिसके परिणामस्वरूप.

और पिछले नहीं बल्कि कम से कम, रोगियों को निश्चित वातावरण में और एक निश्चित आनुवंशिक, जैव रासायनिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि के खिलाफ कुछ जीवन चरणों में बीमार मिलता है. चांग आईएनजी जीवन शैली, पोषण करने वाला और नींद स्थान एक नाटकीय प्रभाव पड़ता है और एक शानदार डिग्री करने के लिए एक मरीज की वसूली में तेजी लाने कर सकते हैं.

संक्षेप में, वहाँ 4 कदम है कि लाईम रोग और पुराने संक्रमण के इलाज में महत्वपूर्ण हैं कर रहे हैं:

1. विषाक्त शरीर बोझ को घटाना
2. परेशान शरीर क्रिया विज्ञान में सुधार

3. माइक्रोबियल गिनती को घटाना

4. प्रतिरक्षा माँडुलन

ये कदम और सिद्धांतों पर आधारित हैं वे उपचार नीचे दिए गए सुझावों में बुना जाता है.

Thriiive.com शीर्ष 10 की सूची:

Thriiive.com शीर्ष 10 की सूची है जो दोनों बराबर - पिता और बच्चों के लिए उपयोगी जीवन शैली विकल्प के साथ शुरू:

1. जीवन - खुशी जोड़ने के लिए, तनाव को कम
2. ऊर्जा - धूप और प्रकृति जोड़ने के लिए, EMF रात में (रात में बंद सभी बिजली चालू करने के लिए, कोई सेल फोन, घर में कोई DECT फोन, "नींद" अभयारण्य के लिए सेल फोन प्रसारण से ढाल) को कम
3. जल - पवित्रता और संरचना को जोड़ने, संदूषक कम. स्वच्छ पीने के पानी के साथ शुरू करो. यदि आप क्लोरीनीकृत क्षेत्र में रहते हैं: लकड़ी का कोयला फिल्टर काफी अच्छा है. यदि आप फ्लोराइड क्षेत्र में रहते हैं: केवल एक 5 चरण रिवर्स असमस प्रणाली करना होगा.
4. खाद्य - कार्बनिक जाने के लिए और असली भोजन का चयन करने के लिए से बचने के लिए, कुछ भी है अपने शरीर को सहारा नहीं पचा सकता है (अक्सर दूध और लस).
5. व्यायाम से बढ़ पाने के लिए: सिर्फ तुम्हारे लिए प्रति दिन 30 मिनट, बच्चे के लिए अधिक है.
6. टेस्ट और अधिक ऊर्जावान परीक्षण का उपयोग, कम खून / प्रयोगशाला खींचता है.
7. भावनाएँ - नकारात्मक आत्म बात कम, अपने आप को लग रहा है, अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक मुद्दों और एक चिकित्सक के साथ दर्दनाक अनुभव को संबोधित करने की अनुमति.
8. शारीरिक इलाज और फोकल घावों के निशान (, दंत चिकित्सा, अंग) को खत्म करने

Thriiive.com शीर्ष 10 की सूची:

Thriiive.com शीर्ष 10 की सूची है जो दोनों बराबर - पिता और बच्चों के लिए उपयोगी जीवन शैली विकल्प के साथ शुरू:

1. जीवन - खुशी जोड़ने के लिए, तनाव को कम
2. ऊर्जा - धूप और प्रकृति जोड़ने के लिए, EMF रात में (रात में बंद सभी बिजली चालू करने के लिए, कोई सेल फोन, घर में कोई DECT फोन, "नींद" अभयारण्य के लिए सेल फोन प्रसारण से ढाल) को कम
3. जल - पवित्रता और संरचना को जोड़ने, संदूषक कम. स्वच्छ पीने के पानी के साथ शुरू करो. यदि आप क्लोरीनीकृत क्षेत्र में रहते हैं: लकड़ी का कोयला फिल्टर काफी अच्छा है. यदि आप फ्लोराइड क्षेत्र में रहते हैं: केवल एक 5 चरण रिवर्स असमस प्रणाली करना होगा.
4. खाद्य - कार्बनिक जाने के लिए और असली भोजन का चयन करने के लिए से बचने के लिए, कुछ भी है अपने शरीर को सहारा नहीं पचा सकता है (अक्सर दूध और लस).
5. व्यायाम से बढ़ पाने के लिए: सिर्फ तुम्हारे लिए प्रति दिन 30 मिनट, बच्चे के लिए अधिक है.
6. टेस्ट और अधिक ऊर्जावान परीक्षण का उपयोग, कम खून / प्रयोगशाला खींचता है.
7. भावनाएँ - नकारात्मक आत्म बात कम, अपने आप को लग रहा है, अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक मुद्दों और एक चिकित्सक के साथ दर्दनाक अनुभव को संबोधित करने की अनुमति.
8. शारीरिक इलाज और फोकल घावों के निशान (, दंत चिकित्सा, अंग) को खत्म करने

इलेक्ट्रोलाइट्स जोड़ने के लिए.सर्वश्रेष्ठ: मैट्रिक्स इलेक्ट्रोलाइट से जैव शुद्ध. बड़े ग्लास जार में आरओ पानी डालो, 2 लीटर पानी प्रति tbsp इलेक्ट्रोलाइट जोड़ने

सर्वश्रेष्ठ: (बायो शुद्ध) एम - पानी प्रति लीटर 1 भरा प्याली • संरचना को जोड़ने

• प्रकाश जोड़: 30 मिनट के लिए पानी में बुलबुला Valkion स्वेटर करना होगा ऊर्जा समृद्ध हवा: सर्वश्रेष्ठ.

चिकित्सकीय मुद्दों और सुझाव:

- दूध क्षय बच्चों और वयस्कों में सबसे अधिक बार HPU का एक संकेत है, विषाक्तता या वीटा मिनट कश्मीर कमी का नेतृत्व (विटामिन कश्मीर प्रोटोकॉल देखें)
- बच्चों के मिश्रण या जड़ भरने रखा कभी नहीं करना चाहिए - समग्र भरने के लिए पूछना
- एक जैविक दंत चिकित्सक है जो पहले से ही पता है कि पारा युक्त मिश्रण बाहर गैस पारा जो एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन (कोई बात नहीं कितना नेताओं एड विज्ञान बिगाड़ना हो सकता है) है.
- एक दंत चिकित्सक, जो समझता है रोड़ा मिल (वह एक osteopath के साथ मिलकर काम करेगा.)
- गैर फ्लोराइड दूधपेस्ट (बेहतर विकल्प xylitol होते हैं) और एक जीभ खुरचनी का उपयोग
- दूधब्रश बाँझ बनाना (यूवी चैम्बर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी)
- सिखाने और / या शुरू से ही अच्छा दंत स्वच्छता लागू
- एंजाइमों और स्वाद का मुँह तामचीनी कटाव में बैठे विटामिन के साथ सतर्क हो.

टीकाकरण:

Tylenol तैयारी के रूप में, या के बाद एक बुखार (ग्लूटाथैऑन उत्पादन को कम कर देता है और थिमेरोसाल अधिक कठिन बना देता है के लिए शरीर से स्पष्ट है) के लिए कभी नहीं दे.

टीका लगाना (नाक बह रही है, बुखार, दस्त, घास का बुखार) नहीं है, जबकि आपका बच्चा बीमार है एक समय में एक से अधिक टीका नहीं देने की कोशिश करो, एमएमआर व्यक्तिगत घटकों में दिया जा सकता है. डबल जाँच करें कि टीके से मुक्त हैं.

यदि संभव हो तो कोई फ्लू का शॉट (सभी एथिल पारा होते हैं).

बुखार का समर्थन: शांत स्नान, होम्योपैथी (बुखार की शुरुआत में 6X Aconitum, 30 बैलाडोना बाद में एक सी), उच्च खुराक विटामिन (प्रति दिन 400 000 आइयू जबकि बीमार) एक - उपयोग अनुसंधान बायोटिक्स एे अगर बच्चे को अच्छी तरह से पर्याप्त Mulsion प्रधान गुण (ड्रॉप प्रति 12500 आइयू) भी आंत्र सहिष्णुता हर घंटे के लिए विटामिन सी का उपयोग करें. बच्चे है कि नियमित रूप से विटामिन सी और जस्ता ले शायद ही कभी गंभीर रूप से बीमार हो (फिर से खोज पोलियो में देखो) युवा एक बच्चा है, और अधिक संवेदनशील उसकी / उसके तंत्रिका संबंधी प्रणाली गुणवर्धक औषधि है. यदि संभव हो तो, रुको तक 2 जन्मदिन के बाद (इस समय TH-1 प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा विकसित और स्थिर) दे / इंजेक्शन (प्रतिरक्षा प्रणाली (10 -20 मिलीग्राम / किलो) कम करने के बिना कम से कम सहायक विषाक्तता के बाद iv ग्लूटाथैऑन asap मिल कम से कम कोशिश, एनएसी 10 मिलीग्राम / किग्रा पहले 1 और 2 सप्ताह के लिए प्रति दिन 3-4 बार दे सप्ताह के बाद.

9. खुराक

ऐड खनिज, कमी: मल्टी विटामिन खाना एलर्जी के प्रति फोटो का कागज़ प्रकाश - ग्राही बनाना, कैल्शियम (जैव फिल्मों के तत्व).

10. अविषीकरण

- अपने घर: खुली खिड़कियां, कोई कालीन (या वैक्यूम दैनिक), कोई अंदर जूते, हाथ धोने, घर या बगीचे में कोई रसायन (VOC पेन्ट्स, कीटनाशकों, आदि, मोल्ड दाग के लिए सिरका का उपयोग), कप: कोई साबुन अवशेषों सुगंध मुक्त, कोई ओजोन वायु शोधक (जैव शुद्ध एक प्रकार का पौधा का उपयोग करने के लिए मोल्ड और हवा में बीजाणु रोगाणुओं को समाप्त वाष्पित्र), कम से कम 50% (धूल के कण और ढालना अधिक नमी में वृद्धि) घर में नमी रखने के लिए, बिस्तर बाहर प्रसारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण नमी को बरकरार रखे हुए है, 1 घंटे के उजागर झरझरा सामग्री के लिए सूर्य के प्रकाश के 80% से धूल के कण को कम कर देता है.
 - अपने भोजन: जैविक खाद्य, कोई प्लास्टिक खाना पकाने गियर, एल्यूमीनियम से बचने के लिए, स्टेनलेस स्टील या चीनी मिट्टी लेपित कच्चा लोहा pans का उपयोग करें, कप, प्लेट और विशेष रूप से रंगीन कांच शामिल हो सकता है और बंद का नेतृत्व दे प्लास्टिक बंद थैलेट्स देता है.
 - लैपटॉप / डीवीडी खिलाड़ियों, PBDEs (लौ कम) और भारी धातुओं (फ़ीरोज़ा, पारा, सीसा ...), अलग कुंजीपटल का उपयोग करने के लिए दूरी मिल.
- इलाज लकड़ी (आर्सेनिक), सैंडबॉक्स (अक्सर दूषित), आयातित खिलौने (सीसा), नम दीवारों या छत, पास यातायात (कैडमियम), अच्छी गुणवत्ता हवा फिल्टर पास कोयला संयंत्र और प्रचलित हवा की दिशा: • की जांच करने के लिए.

विटामिन प्रोटोकॉल:

अगले संशोधित मूलभूत कैथरीन टी प्रोटोकॉल (उर्फ "विटामिन प्रोटोकॉल", <http://health.groups.yahoo.com/> समूहों / विटामिन) का उपयोग करें:

चरण 1: के रूप में रोगियों को इस प्रोटोकॉल पर आरंभ करने, शरीर में विषाक्त पदार्थों को जुटाने और कोशिकाओं डम्पिंग शुरू करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है करने के लिए बोर्ड पर कुछ विष बाध्यकारी एजेंट है, गिरावट के चेहरे की विकृति और लक्षणों का प्रबंधन करने के लिए तैयार "रिवर्स विषाक्तता" (जिगर और गुर्दे - अपने अक्सर अधिक विषाक्त सक्रिय मुफ्त कट्टरपंथी के रूप में धातुओं और अन्य विषाक्त पदार्थों उनके बाध्यकारी साइटों से अलग और बाहर निकलता है की ओर ले जाने के) के. का प्रयोग करें:

- जैव शुद्ध माइक्रो (एसएच बढ़ाया सिलिका क्षेत्रों) सिलिका 100µg अविषीकरण संकट (या इसके बारे में पहले संकेत के साथ) के समय के दौरान 10 प्रति किलो प्रति दिन शरीर के वजन, अन्यथा 2 प्रति दिन स्कूप्स (200µg)
- क्लोरेला (जैव शुद्ध): 1 - संकट के दिनों के दौरान 2 TBL / किग्रा
- ग्रीन क्ले और / या जिओलाइट: 1 चम्मच दो बार दैनिक
- तीव्र प्रतिक्रियाओं के लिए लकड़ी का कोयला
- बीटा sitosterol

हल्के प्रतिक्रियाओं के लिए सेब पेक्टिन

चरण 2: बेकिंग सोडा क्षार शरीर में मदद करने के क्रम में सबसे तीव्र लक्षण (बरामदगी तरह) को कम स्नान.हर दिन या Epsom नमक स्नान (मैग्नीशियम सल्फेट) के साथ बारी, मैग्नीशियम के ट्रांसडर्मल तेज करने के लिए कई चयापचय एंजाइमों और शरीर की प्रणाली पर और क्रीज में पैरा सहानुभूति टोन (/ तनाव तनाव कम हो जाती

है, नींद बढ़ जाती है और अच्छा आंत्र आंदोलनों सुनिश्चित की बारी है, अविषीकरण रास्ते पर बदल जाता है). स्नान प्रति 8 कप का प्रयोग करें.

चरण 3: पुनर्जलपूरण कॉकटेल पुन हाइड्रेट कोशिकाओं को बहाल करने और कोशिका झिल्ली संरचना, अंतर सेलुलर मचान और सभी के भीतर सेलुलर प्रक्रियाओं और झिल्ली चैनल गतिविधि और दक्षता के समारोह का विस्तार

जैव शुद्ध मैट्रिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स: 6oz 2/3rd पानी और 1/3rd बकरी के साथ भरा कप प्रति 2 बड़ा चम्मच - दूध अखरोट / या सोया दूध या प्रोटीन शक्ति पेय (पानी के पार झिल्ली यातायात में मदद करता है). कोशिका झिल्ली में इलेक्ट्रोलाइट परिवहन और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा के लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्लूकोज का स्रोत जोड़ें. 2 कप एक दिन पीने.

पोटेशियम आधारित लवण, ग्लूकोज और एमिनो एसिड सेल जलयोजन और सूक्ष्म ट्यूब के भीतर मचान के विस्तार में वृद्धि हुई है. मैट्रिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स में फास्फोरस विषाक्त पदार्थों के गुर्दे, जो तब किया जा सकता है सफलतापूर्वक मूत्र में बाहर बंद tled में एसिड युग्मन में मदद करता है.

यदि लक्षण एंड उच्च खुराक विटामिन ई और बढ़ रुक सूखे के रूप में के रूप में अच्छी तरह से लहसुन बाध्यकारी एजेंट की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और कम से कम अविषीकरण प्रतिक्रियाओं.

कदम 4

मूल तत्व

• मैग्नीशियम: 800mg करने के लिए 200mg या

अधिक, (मैग्नीशियम सिट्रेट) चमकेगी और समर्थन मांसपेशियों और संयोजी ऊतक (मैग्नीशियम और दूसरों) को स्थानांतरित करने में मदद करता है, KPU और HPU मामलों में बहुत कमी हो जाता है

फास्फोरस •: अक्सर जल्दी से बी -6 की उच्च खुराक (/ HPU किमी, जन्ती विकारों, नींद, ...) के लिए की जरूरत को कम कर देता है. यह जरूरत है

बी -6 के रूपांतरण के लिए अपनी सक्रिय रूप P-5-P और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के उत्पादन के लिए. एएसडी बच्चों को अक्सर कम गुर्दे प्रयोगशाला (BUN, GFR) मार्करों कि अभी तक आप फास्फोरस दे सुधार नहीं होगा.

• एटीपी: सारे शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं के लिए ईंधन प्रदान करता है, खाली पेट पर उम्र और आकार पर निर्भर करता है, किसी भी ब्रांड के 50-450mg/day, 10-20mg के साथ शुरू करने के लिए, धीरे धीरे को बढ़ाने के Valkion स्वेटर ऑक्सीजन ऊर्जा (2 ऑउंस / के साथ शुरू सक्रिय पानी के दिन, धीरे बढ़ाने के लिए, तो साँस लेना शुरू)

• विटामिन डी 3: सोते समय दे 75 / शरीर के वजन (लक्ष्य: 80 या अधिक का रक्त स्तर) की दैनिक आइयू पौंड, विरोधी भड़काऊ, का समर्थन करता है हड्डियां, दांत और चेहरे का विकास, विरोधी वायरल और विरोधी बैक्टीरियल (आदि Tbc) प्रतिरक्षा प्रणाली के कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण.

विटामिन K2 (menatetrenone): काम

जिगर में 1mg/10 पाउंड शरीर का वजन कम से कम दो बार कम आधा जीवन के कारण दैनिक खुराक, हड्डियों में कैल्शियम डालता syn ऑक्सालेट्स की थीसिस बंद हो जाता है, माइलिन गठन के साथ मदद करता है, रोगजनक जैव फिल्मों की अखंडता को कम हो जाती है, विटामिन परिवहन एक और थायराइड हार्मोन मस्तिष्क, यह दांतों

में सुधार देखने के लिए आम है, एक ओर का प्रभाव अनिद्रा शामिल हैं (यदि आप भी तेजी से काम करते हैं) और शायद कुछ गुर्दे में दर्द

- विटामिन ए (मछली या जिगर स्रोत होना चाहिए!): <2 साल पुराने 2.500-5.000 आइयू दैनिक, 2-10 साल की उम्र: 5.000-11.000 आइयू दैनिक, > 10 वर्ष की उम्र: 5.000-16.000 दैनिक आइयू, pregnant / नर्सिंग: 10.000-20.000 आइयू दैनिक, 250.000 आइयू जैव फिल्म उपचार (लक्ष्य के दौरान दैनिक: रक्त सीरम रेटिनोल
- 80 ग्राम / डीएल), एक विटामिन के प्राकृतिक स्रोतों के पानी में घुलनशील स्रोतों की विषाक्तता 1/10th है, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स, विरोधी वायरल के लिए छोड़कर सभी हार्मोन रिसेप्टर्स सक्रिय, थायराइड का समर्थन करता है, विरोधी भड़काऊ, विटामिन डी और K2 रिसेप्टर्स के लिए आवश्यक, तंत्रिका वृद्धि कोलेस्ट्रॉल, पित्त और नमक गठन
- प्रोबायोटिक्स: बहुत उच्च खुराक (450 डॉलर या उससे अधिक) के लिए काम करते हैं, पाचन लक्षण मरने के बंद की उम्मीद